

(b) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). As far as supplies to Government are concerned, paper mills are to fulfil their obligations in terms of rate contracts entered into with the DGS&D. As regards their obligation to supply white printing paper for the educational sector under the voluntary agreement entered into in 1974, the mills have by and large supplied paper according to the allocations made on them, although certain mills have defaulted at times due to their financially weak position and shortage of power.

घड़ियों के कालतु पुर्जों को आयात-शुल्क छूट

447. श्री राम सागर :

श्री राम नरेश कुराबाहा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बजट में घड़ियों के पुर्जों के आयात पर से आयात शुल्क हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या प्रयोजन है ; और

(ग) इस छूट के बावजूद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को घड़ियों के मूल्य बढ़ने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रालयों को आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण जारी करना

448. श्री गंगा लक्ष्मण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामान्य आदेशों केवल अंग्रेजी में जारी किये जा रहे हैं और उन पर लिखा होता है कि उनका हिन्दी अनुवाद भेजा जायेगा लेकिन हिन्दी अनुवाद या तो भेजा नहीं जाता अथवा वह जब भेजा जाता है, जब आदेशों का महत्व समाप्त हो जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे आदेशों को हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करने का है जिससे उनका महत्व और उपयोगिता कम न हो ;

(ग) क्या स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) जनवरी, से जून, 1979 में जारी किये गये ऐसे परिपत्रों और आदेशों की प्रतिबन्धता कितनी थी जिनमें यह टिप्पणी थी कि इनका हिन्दी अनुवाद भेजा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार यह अपेक्षित है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किये जायें। इस संबंध में प्रशासनिक विधायक भी दी गई है कि हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ साथ जारी किये जाने चाहिएं। फिर भी, कुछ मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के सामान्य आदेश इस रूप में जारी नहीं होते अथवा हिन्दी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के बाद जारी होता है।

(ख) हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सन् 1979-80 के लिये जो वार्षिक कार्यक्रम तय किया गया है, उससे संबंधित आदेश जारी करते हुये इस बात पर पुनः जोर दिया गया है कि हर मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय में ऐसे जांच बिन्दु बनाये जायें जो यह सुनिश्चित करें कि सामान्य आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ साथ जारी हों।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से हर तिमाही में जो प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसमें यह सूचना होती है कि कितने सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी हुये और कितने द्विभाषी रूप में (हिन्दी और अंग्रेजी में) जारी हुये। तिमाही प्रगति रिपोर्ट द्वारा जो सूचना दी जाती है, उसमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कितने परिपत्र तथा अन्य सामान्य आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ साथ जारी हुये और कितनों के हिन्दी रूपांतर बाद में जारी हुये। यह सूचना इस प्रश्न के संदर्भ में एकत्रित की जा रही है।

Reduction in prices of Cotton Cloth

449. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the textile industry has reduced the prices of cotton cloth in response to the Minister's call for that; and

(b) if so, the varieties of cloth, the prices of which have been reduced; previous price and reduced price?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) A sample study made by the Textile Commissioner in respect of 168 sorts reflects a